

## होम अग्नि सुरक्षा

### धुआँ अलार्म

- ▣ एक युक्ति है कि धूम्रपान का पता लगाता है और एक को भागने के लिए एक अलार्म लगाता है.
- ▣ हर घर में हर स्तर पर कम से कम एक स्मोक अलार्म होना चाहिए.
- ▣ कभी अपने धूम्रपान अलार्म के बाहर ले बैटरी को छोड़कर इसे बदलने के लिए.
- ▣ कुछ धूम्रपान अलार्म बैटरी है कि परिवर्तित करने की आवश्यकता है. यदि इसे "chirps", बैटरी बदलने.
- ▣ अपने धूम्रपान अलार्म हर महीने टेस्ट लगता है अलार्म लगता है.

### पाक कला

- खाना पकाने के पहुंच के बाहर का मत छोड़ो.
- रखें स्टोव साफ करने के लिए और केवल खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.
- यदि एक तेल आग होता है, बर्नर को बंद कर और पैन पर एक ढक्कन लगा. आग पर पानी का उपयोग मत करो!

### ताप

- आइटम सभी heaters से दूर रखो.
- जब तुम चले जाओ या सो जाओ बंद पोर्टेबल heaters मुड़ें.
- पोर्टेबल heaters के साथ ○ विस्तार तार का उपयोग कभी नहीं.

### कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता

- कुछ उपकरणों और मशीनों एक जहरीली गैस है जो या नहीं देखा खुशबू का उत्पादन.
- निम्नलिखित अंदर घरों, गैरेज और अन्य बंद रिक्त स्थान का उपयोग कभी नहीं, या एक खुली खिड़की के बाहर: जनरेटर, लकड़ी का कोयला ग्रिल, कैंप स्टोव, वाहन या अन्य गैस इंजन.
- कभी भी थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए, अपने घर की गर्मी के लिए एक गैस ओवन.

### यदि आप एक आग है

- हर कोई बाहर निकालो.
- अपने परिवार की बैठक जगह पर जाएँ.

o मदद के लिए 9-1-1 बुलाओ.

o एक जलती हुई घर या इमारत के अंदर वापस जाना कभी नहीं.

जब आप 911 कॉल -

o आपात स्थितियों के लिए 9-1-1 बुलाओ. यह आग, चिकित्सा सहायता और पुलिस के लिए प्रयोग करें. यह 9-1-1 कॉल करने के लिए स्वतंत्र है.

o यदि आप अंग्रेजी में बात नहीं करते, ऑपरेटर भाषा क्या आप एक दुभाषिया के लिए बात बताने की कोशिश.

o बताने के लिए आपात स्थिति की तरह है यह क्या है और क्या पता है के लिए तैयार रहो.

मेरा पता है: